



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

13 अग्रहायण 1941 (श10)  
(सं0 पटना 1317) पटना, बुधवार, 4 दिसम्बर 2019

---

सं0 5/सौ0आर0-111/2008-10233

गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

29 नवम्बर 2019

विषय :-भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन के आलेखन हेतु प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार का निर्धारण के संबंध में।

पी0ए0आर0 नियम, 2007 में निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के सभी स्तरों के पदधारकों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) के आलेखन हेतु प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार का निर्धारण किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित प्रावधान के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-3943, दिनांक-10.05.2012, संकल्प संख्या-6199, दिनांक-01.08.2012, संकल्प संख्या-6698, दिनांक-12.08.2014, संकल्प संख्या-5477, दिनांक-18.07.2016, संकल्प संख्या-440, दिनांक-18.01.2017, संकल्प संख्या-8496, दिनांक-27.09.2018, संकल्प संख्या-6429, दिनांक-06.08.2019 एवं संकल्प संख्या-7829, दिनांक-19.09.2019 के द्वारा बिहार संवर्ग के कतिपय संवर्गीय एवं गैर संवर्गीय पदों के विरुद्ध कार्यरत पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु प्राधिकारों का निर्धारण किया गया है, किन्तु बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिससेवा के पदधारक यथा-पुलिस महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) आलेखन हेतु प्राधिकार का निर्धारण अबतक नहीं किया जा सका है।

2. अतः राज्य सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के उक्त पदधारक के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) आलेखन हेतु प्राधिकारों का निर्धारण निम्नरूपेण किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्रम सं०	प्रतिवेदित पदाधिकारी	प्रतिवेदक प्राधिकार	समीक्षी प्राधिकार	स्वीकरण प्राधिकार
1	पुलिस महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस।	पुलिस महानिदेशक (यदि वरीय वैच के हो तो अन्यथा मुख्य सचिव)	मुख्य सचिव यदि पुलिस महानिदेशक ने प्रतिवेदक पदाधिकारी की हैसियत से अभ्युक्ति आलेखित की हो, अन्यथा प्रभारी मंत्री	मुख्यमंत्री

3. यह व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगी।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
रंजन कुमार सिन्हा,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1317-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>